



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४६ पटना, बुधवार, २३ कार्तिक १९३४ (श०)  
१४ नवम्बर २०१२ (ई०)

### विषय-सूची

| पृष्ठ   | पृष्ठ   |
|---|---|
| भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।  | भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। |
| भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।   | भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।  |
| भाग-१-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। | भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।    |
| भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि  | भाग-९—विज्ञापन  |
| भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।  | भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं   |
| भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।   | भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।   |
| भाग-४—बिहार अधिनियम   |   |

७-१४

१५-१७

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

उद्योग विभाग

25 अक्टूबर 2012

वि०नि० फारम

अनुसूची-53 फारम संख्या-202

(वि०नि० नियम 83 द्रष्टव्य)

### “प्रभार रिपोर्ट”

सं० 5133—अधोहस्ताक्षरी मैं नवीन वर्मा, भा०प्र०से०(1982) ने आज दिनांक 25 अक्टूबर 2012 के पूर्वाह्न में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का पदभार श्री अफजल अमानुल्लाह, भा०प्र०से०(1979) से ग्रहण किया।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1/पी०-1013/2012-सा०प्र०-14721, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 द्रष्टव्य है।

अफजल अमानुल्लाह,

भारमुक्त पदाधिकारी।

नवीन वर्मा,

भरग्राही पदाधिकारी।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

13 जून 2012

सं० 1/रा.स्था.(7)—सं.नि.(समायोजन/नियुक्ति) 01/2012—सह-2515—कृषि विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 8160 दिनांक 28.12.11 द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5661 दिनांक 02.09.08 द्वारा बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं कृषि उत्पादन बाजार समितियाँ (विघटित) के कतिपय कर्मियों का समायोजन/नियुक्ति विभिन्न विभागों में निम्न पद एवं वेतनमान में किये जाने के विरुद्ध कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 6997/08 में दिनांक 27.07.10 को पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमाननावादों के निष्पादन हेतु दिनांक 24.10.11 को हुई सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति की बैठक में बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) के निम्न पद एवं वेतनमान में समायोजित/नियुक्ति कर्मियों को समकक्ष पद/वेतनमान में समायोजन द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है, जिसकी स्वीकृति राज्यमंत्री परिषद की दिनांक 01.12.11 को हुई बैठक में मद संख्या- 25 के तहत दी गई है, जिसके क्रम में सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 5400 में समायोजन द्वारा सशर्त नियुक्त किया गया है।

श्री अजीत कुमार, पूर्व पणन सचिव, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5661 दिनांक 02.09.2008 द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर वेतनमान 9300-34800 , ग्रेड पे 4200 रु में समायोजित किया गया था, ने कृषि विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 8160 दिनांक 28.12.11 के आलोक में सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में दिनांक 02.01.2012 को योगदान किया परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सम्पतचक, पटना के आदेश ज्ञापांक 46 दिनांक 09.01.12 द्वारा विरमित किया गया तथा बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) द्वारा श्री कुमार की सेवापुस्त उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त के आलोक में श्री अजीत कुमार, गृह जिला- मोतिहारी, जन्मतिथि 31.10.1952, शैक्षणिक योग्यता-स्नातक (प्रतिष्ठा), कोटि-सामान्य में सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे 5400 में समायोजन/नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान स्वीकृत करते हुए सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर के रिक्त पद पर उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।

19 जुलाई 2012

सं० 1/रा.स्था.(7) सं.नि.(निजी)-08/12-सह.-3163—श्री धर्मनाथ प्रसाद, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, विक्रमगंज अंचल, विक्रमगंज, (रोहतास) को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए बिहार सेवा सहिता के नियम 227, 229 ,

230 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 21.05.12 से 12.06.2012 तक अर्थात् कुल 23 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव ।

9 जुलाई 2012

सं० 1/रा.स्था.-वि.स.से.-12/2005-2918—श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सुपौल को अपनी चिकित्सा कराने हेतु छुट्टी में रहने के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम 227,229, 230 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 10.08.2011 से 18.09.2011 तक अर्थात् कुल 40 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव ।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

8 नवम्बर 2012

सं० स्था.-02-08/2005-2058—श्री शब्बीर अहमद, सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णिया, कार्य हित में अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा के अगले आदेश तक अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

2. तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 1254 दिनांक 20.06.2012 द्वारा निर्गत सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा का अतिरिक्त प्रभार संबंधी आदेश इस हद तक संशोधित समझें जायेंगे ।

3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अनिल कुमार झा, अवर सचिव ।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचनाएं

26 अक्टूबर 2012

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-5377—विभागीय आदेश संख्या 5375 दिनांक 26.10.2012 के द्वारा अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के निरलबन के फलस्वरूप श्री प्रदीप कुमार, निरीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर को बिल्कुल कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है । इन्हें बिहार कोषागार संहिता भाग- 1 के नियम 148 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

यह व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी हैं अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के पद पर किसी अन्य पदाधिकारी के पदस्थापन/योगदान करने के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-5378—श्री कृष्णा चौधरी, अधीक्षक उत्पाद, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के अस्वस्थता के कारण अवकाश में प्रस्थान कर जाने के फलस्वरूप श्री रजनीश, निरीक्षक उत्पाद, मोतिहारी को बिल्कुल कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मोतिहारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा इन्हें बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 148 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

यह व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी है । अधीक्षक उत्पाद के पद पर पदस्थापन/योगदान करने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

बिहार-राजपाल के आदेश से,  
विजय रंजन, उप-सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 35—571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# भाग-2


## बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सहकारिता विभाग

कार्यालय आदेश

1 अगस्त 2012

सं० 2/सह.मु.अरा.(नि.व.लि.)-04/12-3351—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के स्तर पर खिलाड़ियों के चयन के लिए गठित चयन समिति द्वारा चयनित खिलाड़ियों में से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9/नि.-01-01/2011 सा.प्र.-242 दिनांक 06.01.2012 के क्रमांक-29 पर श्री अमर कुमार को सहकारिता विभाग में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए सेवा सौंपी गयी है, को वेतन संरचना बैंड वेतन रुपये 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 1900 में एवं सरकार द्वारा निर्धारित समय-समय पर अन्य भत्तों के साथ निम्न शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त (19.01.2012 अप. से) करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित प्रशाखा में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है -

| क्र. सं. | नाम (फोटो सहित) पिता का नाम एवं पता   | खेल विद्या का नाम/जन्म तिथि/शैक्षणिक योग्यता एवं योगदान की तिथि              | आरक्षण कोटि | पदस्थापित स्थान |
|----------|---|--|-------------|-----------------|
| 1        | 2   | 3  | 4           | 5               |
| 1.       |  <p>श्री अमर कुमार, पिता-श्री नवल किशोर मिश्रा, मु.-लोहिया नगर, पो.-सुहदनगर, जिला-बेगुसराय, पिन-851101</p> | बॉलीबॉल/31.12.1982 (एकतीस दिसम्बर उन्नीस सौ बेरासी)/स्नातक/19.01.2012 (अप.)। | सामान्य     | प्रशाखा-2       |

2. यह नियुक्ति स्थायी होने के पूर्व पूर्णतः अस्थायी है एवं एक कारण पृच्छा निर्गत कर एवं उसका विनिश्चय कर किसी भी समय नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

3. पदभार ग्रहण करने के समय इन्हें सरकारी असैनिक शल्य चिकित्सा से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं पदभार ग्रहण करते समय किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4. भविष्य में ऐसा पाया जायेगा कि जिन तथ्यों/कागजातों के आधार पर नियुक्ति की गई है वह गलत है तो वैसी स्थिति में कारण पृच्छा निर्गत करते हुए सरकारी सेवा समाप्त की जा सकती है।

5. पदभार ग्रहण करते समय तिलक-दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

6. उक्त नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 2469, दिनांक 16.11.2005 के तहत बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 के अधीन होगा।

7. यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01.04.2003 एवं पत्रांक 1859 दिनांक 08.07.2006 में दिये गये निर्देश एवं शर्तों के अधीन है।

8. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या 242, दिनांक 06.01.2012 में निहित शर्तें यथावत रहेगी।

9. श्री कुमार के वेतनादि की निकासी उनके योगदान की तिथि 19.01.2012 (अप.) अर्थात् 20.01.2012 से बजट शीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें-090-सचिवालय-0005 सहकारिता मांग संख्या-09-विपत्र कोड संख्या-एन.345100 0900005 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जायेगा।

आदेश से,  
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।

#### सहकारिता विभाग

##### अधिसूचना

7 अगस्त 2012

सं. 1/ सह.स्था. (2) प्रो. 42/2007-3452—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6614 दिनांक 09.05.2012 की कंडिका (3) (क) के आलोक में बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं बिहार सहकारिता सेवा (अंकेक्षण प्रभाग) के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु विभागीय अनुशंसा के लिए सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

(1) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

(2) श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।

#### अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

##### अधिसूचना

6 नवम्बर 2012

सं० अ०स०क० 08-06/2010-1634—मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, पटना के परिसर में 124 शय्या वाले अल्पसंख्यक बालक छात्रावास निर्माण की सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

(i) छात्रावास का निर्माण मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के वक्फ डीड के आलोक में किया जायेगा।

(ii) मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा वक्फ डीड के आलोक में छात्रावास का नाम छात्रावास मदरसा शमसुल हुदा होगा।

(iii) मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, पटना के परिसर में प्रस्तावित छात्रावास केवल मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, पटना के छात्रों के लिए होगा।

(iv) प्रस्तावित छात्रावास मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण के पूर्णतया अधीन होगा।

2. छात्रावास के निर्माण हेतु बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

3. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०)-अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

##### अधिसूचना

2 नवम्बर 2012

सं० 2/न्या०-2/12-1124/न०वि०एवं०आ०वि०—माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सिविल) सं०-309/2003, 330/2001, 44/04 एवं 688/07-लक्ष्मी नारायण मोदी वनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में राज्य में वद्यशाला के लिए एक कमिटी का गठन।

निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य में वद्यशाला के लिए प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य कमिटी का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग | — अध्यक्ष |
| 2. स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि               | — सदस्य   |
| 3. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रतिनिधि   | — सदस्य   |

4. श्रम संसाधन विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य
  5. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जो Central Food Safety and Satndard Authority of India का प्रतिनिधित्व करेंगे — सदस्य
  6. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि — सदस्य
  7. राज्य पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि — सदस्य
  8. पुलिस महानिदेशक के प्रतिनिधि — सदस्य
  9. राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि — सदस्य
  10. अन्य पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ जो सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु नामित किये जा सकें — सदस्य
2. उपर्युक्त कमिटी निम्नलिखित कार्यों का संपादन करेंगी:—
- (1) स्थानीय निकायों के अंतर्गत सभी वद्यशालाओं को चिन्हित करना एवं उन्हें सूचीबद्ध करना।
  - (2) जिलाधिकारी/उपायुक्तों तथा जिला खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों से वद्यशालाओं की स्थिति/कार्य प्रणाली के संबंध में विधिक प्रावधानों के अनुपालनार्थ प्रतिवेदन प्राप्त करना।
  - (3) पुराने वद्यशालाओं के आधुनिकीकरण तथा आवासीय क्षेत्र के समीप अवस्थित वद्यशालाओं के अन्यत्र पुनर्वासित करने की अनुशंसा करना।
  - (4) ठोस अपशिष्ट, जल/वायु प्रदूषण को दूर करने हेतु तथा वद्य हेतु पशुओं पर कूरता न बरते जाने संबंधी संगत उपाय अनुशंसित करना।
  - (5) नियमित रूप से वद्यशालाओं का औचक एवं आकस्मिक निरीक्षण करना तथा अपनी अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए निदेश प्रदान करना।
  - (6) केन्द्रीय समिति को अद्यतन स्थिति के संबंध में अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन देना तथा आवश्यकतानुसार केन्द्रीय समिति का सुझाव प्राप्त करना या केन्द्र सरकार से सहयोग प्राप्त करना।
  - (7) स्थानीय निकायों को वद्यशालाओं को लाइसेंस निर्गत करने हेतु सुनिर्णित अनुमति देना।
  - (8) बिना लाइसेंस प्राप्त चालू एवं अन्य अवैध वद्यशालाओं की पहचान के विषय में जानकारी प्राप्त कर जिला पदाधिकारी एवं अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से उन्हें ध्वस्त करने की कार्यवाई करना।
  - (9) बाल श्रमिकों की रोकथाम करना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अरुण कान्त शरण, उप-सचिव ।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**  
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**  
**बिहार गजट, 35—571+50-डी0टी0पी0।**  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**

# भाग-9(ख)

## निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

अधीक्षक का कार्यालय  
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

### निविदा सूचना

सं० 14159—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न विभागों के उपयोग में आने वाले मशीनों के लिए Chemicals, Reagents, consumables, disposable items and Supporting miscellaneous item के कय हेतु बिहार वाणिज्यकर में निबंधित निर्माताओं / प्राधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद कम्प्युटराईज / टंकित निविदा इस निविदा प्रकाशन तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जाता है। बिहार के बाहर के फर्म जो बिहार वाणिज्य कर में निबंधित नहीं हैं, वे भी निविदा में इस शर्त के साथ भाग ले सकते हैं परन्तु दर अनुमोदन के पश्चात् कय आदेश के पूर्व उन्हें बिहार वाणिज्य कर में निबंधन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आदेश रद्द कर दिया जायेगा एवं द्वितीय अनुमोदित दर वाले निविदा दाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। निविदा दो भाग में होगी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद होगी और लिफाफे के उपर Chemicals, Reagents, consumable, disposable item and Supporting miscellaneous item हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। निविदा सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा या फटा निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। विस्तृत सूचना एवं सामग्रियों की सूची का विवरणी इत्यादि [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) & [www.pmch.in](http://www.pmch.in) से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है या कार्यालय अवधि में किसी भी दिन आवेदन देकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तकनीकी निविदा के साथ सभी अभिलेखों के साथ-साथ 100000/- (एक लाख ) रुपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा। आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी। निविदा की सभी पृष्ठों को पूर्णकृत करते हुए विस्तृत उल्लेख अग्रसारण पत्र पर अवश्य रूप से अंकित होना चाहिए।

स्थान:- पटना

दिनांक :- 3 नवम्बर 2012

(ह०)—अस्पष्ट  
अधीक्षक ।

### TERMS & CONDITIONS

1. Tender will be of two type (1) Technical bid & ( 2) Financial Bid .which will be sent in two separate and sealed Envelope. If not the same will be rejected. On the Envelope clearly mention Technical Bid and Financial Bid.
2. Tenderer will write his Name with full address and Telephone Number.
3. All relevant document attached in technical Bid, such as authority letter (Against the particular tender ) , Pan card , quality certificate, sales Tax registration , Sales tax Clearance certificate ( As per circular) , Drug licensees Etc .
4. Superintendent reserve rights to rejects any tender without assigning any reason.
5. Tender should be Computer typed only. Handwritten and overwriting tender will be rejected and page no. will be mention in every page and the same has been declared on forwarding letter of the tender.
6. VAT Tax & I.T. will be deducted from the bill at source and deposited in Govt. account as per govt. norms.
7. Only standard manufacturer and company will be accepted .Quality of Chemicals, Reagents, consumables ,disposable items and Supporting miscellaneous items and rate approve of the items will be decided by the purchase committee only.

8. In financial tender only rate will be given with and without tax with name of manufacturer and pack size.
9. If the awarded supplier is unable to supply at the L1 rate in given time frame than award can be given to L2 bidders by purchase committee .
10. The Committee reserves the right to cancel the bid at any time without assigning any reason. for further enquires contact superintendent office hours on working days.
11. In case the selected company firm declines to take up the task at the quoted and approved rates, it would be barred from applying for any tender from PMCH, Patna and will be recommended for black listing by govt of Bihar .also the tender /security money will be forfeited.
12. Any matter according of dispute leading to court case will be within preview of Patna district only.
13. Tenderer who will quoted the rate of close system reagent will attach the company rate of those reagent in their Financial bid and other item rates will not more than MRP/ market rate.
14. Tender will attached their affidavit through 1<sup>st</sup> class Executive magistrate to insure the purchase committee that the rate quoted by them is less than M.R.P for other items and for the reagent of close system is not more than rate to company rate. In future if any question will arise , tenderer will be fully responsible for that.
15. Product should be ISO/FDA/CE/ other national or international Quality certification approved copy of certificate should be enclose with technical bid.
16. Tenderer should be registered in Bihar sales Tax. If they are not registered at the time of tender, then after selection they have to be registered with Bihar sale tax before the order is placed.
17. The Tendered should have to Deposited as Rs. 1,00,000/- ( One Lac ) rupees only as Earnest money with the Technical Tender in the form of Bank Draft. In favour of SUPERINTENDENT, P.M.C.H., Patna.

Sd/-Illegible,  
Superintendent.



**List of Reagents, consumables, disposable items and supporting miscellaneous item****1. REAGENT FOR CYCLOSPORINES ASSAY MACHINE & IRON PROFILE MACHINE (ROCHE)****( Cobas Integra 400 +)**

| Sl. No. | GMMI NO.           | PARAMETER                                |
|---------|--------------------|--|
| 1       | 21044869001        | D: Cobas cup blue w: hole                |
| 2       | 4528182190         | Hemolysing reagent                       |
| 3       | 11488457122        | Haemolyse reagent f.HBA1C                |
|         | <b>Calibrators</b> |  |
| 4       | 20737267322        | Serumproteins T standard                 |
| 5       | 20758809122        | Cobas acetaminophen calibrator           |
| 6       | 20759031322        | Free valproic acid calibrator            |
| 7       | 20759198122        | Salicylat calibrator                     |
| 8       | 20766712322        | Serum benzodiazepines calibrators        |
| 9       | 20766720322        | Serum barbiturates calibrators           |
| 10      | 5201284190         | Oxycodone calibrator negative            |
| 11      | 5178517190         | Oxycodone calibrator 100                 |
| 12      | 5178525190         | Oxycodone calibrator 300                 |
| 14      | 5178533190         | Oxycodone calibrator 500                 |
| 15      | 5178541190         | Oxycodone calibrator 1000                |
| 16      | 5393663190         | Methadone metabolite calibrator negative |
| 17      | 5178584190         | Methadone metabolite calibrator 100      |
| 18      | 5178592190         | Methadone metabolite calibrator 300      |
| 19      | 5178606190         | Methadone metabolite calibrator 500      |
| 20      | 5178614190         | Methadone metabolite calibrator 1000     |
| 21      | 11183974216        | ISE standard low/high                    |
| 22      | 11183982216        | ISE standard low/high                    |
| 23      | 20766305122        | Cyclosporine calibrators                 |
| 24      | 20766399122        | Cyclosporine calibrators                 |
| 25      | 3510832190         | Preciset DAT amphetamine calibrators     |
| 26      | 4528417190         | CFAS HBA1C                               |
|         | <b>Controls</b>    |  |
| 27      | 4521536190         | TDM control set                          |
| 28      | 4567021190         | Prealb./ceru control set                 |
| 29      | 11012002122        | Precichrom I & II                        |
| 30      | 11729683216        | B2-Microglobulin control set serum       |
| 31      | 11730835216        | Myoglobin control set                    |
| 32      | 12148340122        | sTfR control set I & II                  |
| 33      | 20759058322        | Free valproic acid control               |
| 34      | 20766356122        | LSD calibrator & control                 |
| 35      | 20766658322        | Digitoxin online control                 |
| 36      | 3121313122         | PN PUC                                   |
| 37      | 3121291122         | PP PUC                                   |
| 38      | 3510867190         | Control set amphetamine 1000             |
| 39      | 28078165001        | Probe set I-400, set of 2                |
| 40      | 5670713001         | Kit maintenance I400/I400 plus           |
| 41      | 28056552001        | Lubricant grease 9501                    |
| 42      | 28166935001        | Lubricant grease(high vacuum DC)         |
| 43      | 28044546001        | Lubricant oil D4                         |
| 44      | 28086842001        | Seal Teflon 250 microlit , set of 10     |

|    |             |                                     |
|----|-------------|-------------------------------------|
| 45 | 28136815001 | Seal cap pipette, set of 5          |
| 46 | 21411009001 | Lubricant grease ( high vacuum 50G) |
| 47 | 28189099001 | Lubricant microlube GB4131          |
| 48 | 28155089001 | Lubricant oil silicon 10E4          |
| 49 | 28120072001 | Tube set transfer head              |
| 50 | 4461169001  | Container waste box                 |

## 2. REAGENT FOR COBAS C111( AUTO ANALYSER) ROCHE

| Sl. No. | Code        | Description                          |
|---------|-------------|--------------------------------------|
| 1       | 5344620001  | Lamp halogen 12V/20W                 |
| 2       | 4793773001  | Probe c111,set of 2                  |
| 3       | 28088144001 | Syringe 250 microlit                 |
| 4       | 5207975001  | Tube silicon 3x1.5                   |
| 5       | 4794001001  | Tube silicon ID4x1                   |
| 6       | 28117985001 | Tube silicon Do 84x2.4               |
| 7       | 4793455001  | Tubing set ISE                       |
| 8       | 28086842001 | Seal Teflon 250 microlit , set of 10 |
| 9       | 28136815001 | Seal cap syringe ,set of 5           |
| 10      | 3056295001  | Pump tube                            |
| 11      | 4794079001  | Wash station                         |
| 12      | 28018731001 | Filter fluid D13 , 8 set of 10       |

## 3. ELECTRO CHEMILUMINESCENCE'S ( Roche ELECSYS 2010)

| Sl. No. | GMMI NO.    | PARAMETER                        |
|---------|-------------|----------------------------------|
| 1       | 5572185190  | HSV-1 IgG Elecsys cobas 100      |
| 2       | 5572193190  | HSV-2 IgG Elecsys cobas 100      |
| 3       | 5894913190  | Vitamin D total kit              |
| 4       | 5618860190  | Precicontrol varia Elecsys       |
| 5       | 5894921190  | Vitamin D calset                 |
| 6       | 11298500316 | ISE cleaning solution /sys clean |
| 7       | 5713226001  | Kit maintenance 12 M             |
| 8       | 5712971001  | Kit maintenance 6 M              |
| 9       | 5151643001  | Measuring cell with ref elec     |
| 10      | 3023761001  | Tube joint C                     |
| 11      | 4374592001  | Tube joint B2                    |
| 12      | 11709046001 | Tubing block                     |
| 13      | 11996908001 | Sipper probe assy S1c            |
| 14      | 12026864001 | Paddle mixing                    |
| 15      | 5047692001  | P-Nozzle 3 box assy              |

**4. REAGENT FOR COAGULATION ANALYZER (ACL 7000)**

| Sl. No. | Reagents    | DESCRIPTION   |
|---------|-------------|---|
| 1       | 00008469810 | PT-Fib HS Plus (PT TEST)                            |
| 2       | 00020006800 | SynthASil (APTT TEST)                               |
| 3       | 00008469110 | Fibrinogen Clauss                                   |
| 4       | 00020002500 | Liquid Antithrombin ACL Classic + Advance + TOP     |
| 5       | 00020008500 | D-dimer ACL Systems ( <b>AUTOMATED METHOD</b> )     |
| 6       | 00020004800 | SCT (Silica Clotting Time for Lupus Anticoagulants) |
| 7       | 00020008000 | LAC Screen ( For Lupus Anticoagulants)              |
| 8       | 00020008200 | LAC Confirm ( For Lupus Anticoagulants)             |
| 9       | 00020008700 | APCR-V  |
| 10      | 00008468310 | ProClot (Protein C Clotting)                        |
| 11      | 00020002800 | ProS (Protein S Clotting)                           |
| 12      | 00020007800 | Homocysteine  |
| 13      |             |   |
| 14      | 00020009400 | Heparin Xa  |
| 15      | 00020009000 | Plasminogen   |
| 16      | 00020009200 | Plasmin Inhibitor                                   |
| 17      | 00008466050 | Factor II   |
| 18      | 00008466150 | Factor V  |
| 19      | 00008466250 | Factor VII  |
| 20      | 00008466450 | Factor VIII   |
| 21      | 00008466550 | Factor IX   |
| 22      | 00008466350 | Factor X  |
| 23      | 00008466650 | Factor XI   |
| 24      | 00020201200 | Factor XII  |
| 25      | 00009756904 | Reference Emulsion                                  |
| 26      |             | Calibration Plasma                                  |
| 27      |             | Normal Plasma                                       |
| 28      |             | High Plasma   |
| 29      |             | Simple Diluents                                     |
| 30      |             | Factor Diluents                                     |
| 31      | 00006800000 | Rotors  |
| 32      |             | PM kit  |
| 33      |             | Control abnormal level                              |
| 34      |             | Sample cup 0.5 ml                                   |
| 35      |             | Sample Cup 2ml                                      |

**5. REAGENT FOR ERYTHROPOITIN ASSAY MACHINE (CLIA)**

| Sl. No. | New Description       |
|---------|-----------------------|
| 1       | ACTH KIT              |
| 2       | CORTISOL KIT          |
| 3       | EPO KIT               |
| 4       | FERRITIN KIT          |
| 5       | FOLIC ACID KIT        |
| 6       | VITAMIN B12 KIT       |
| 7       | IML. CALCITONIN KIT   |
| 8       | CK-MB KIT             |
| 9       | IML. HOMOCYSTEINE KIT |

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 10 | ALBUMIN KIT                      |
| 11 | C-PEPTIDE KIT                    |
| 12 | INSULIN KIT                      |
| 13 | IGFBP-3 KIT                      |
| 14 | IML. CMV IGG                     |
| 15 | IML. H. PYLORI IGG SEMI-QUANT.   |
| 16 | IML. ANTI-HBC IGM KIT            |
| 17 | IMM.HBSAG CONFIRMATORY KIT       |
| 18 | IML. HERPES IGG KIT              |
| 19 | **IML. IL6 MONO/POLY KIT         |
| 20 | IML. CARBAMAZEPINE KIT           |
| 21 | DIGOXIN KIT                      |
| 22 | IML. PHENYTOIN KIT               |
| 23 | THEOPHYLLINE KIT                 |
| 24 | IML. VALPROIC ACID KIT           |
| 25 | AFP (SEQUENTIAL) KIT             |
| 26 | DHEA SULFATE KIT 100T            |
| 27 | ESTRADIOL KIT 100T               |
| 28 | FSH KIT 100T                     |
| 29 | LH KIT 100T                      |
| 30 | PROGESTERONE KIT                 |
| 31 | PROLACTIN KIT                    |
| 32 | FREE T3 KIT 500T                 |
| 33 | T3 KIT 500T                      |
| 34 | FREE T4 KIT 500T                 |
| 35 | TOTAL T4 KIT 500T                |
| 36 | TBG KIT 100T                     |
| 37 | THYROGLOBULIN KIT 500T           |
| 38 | IML. ANTI-THYROGLOBULIN KIT 500T |
| 39 | ANTI-TPO KIT 500T                |
| 40 | THIRD GENERATION TSH 500T        |
| 41 | CEA KIT 100T                     |
| 42 | THIRD GENERATION PSA 500T        |
| 43 | IML. TURBO CK-MB KIT 100T        |
| 44 | IML. TURBO MYOGLOBIN KIT 100T    |
| 45 | *IML. TURBO NT-PROBNP KIT 100T   |
| 46 | IML. TURBO INTACT PTH KIT 50T    |
| 47 | IML. TURBO TROPONIN I KIT 500T   |
| 48 | BETA-2-MICROGLOBULIN 100T        |
| 49 | IML. ANTI-HBC IGM SAMPLE DILU    |
| 50 | IML. ANTI-HBc IgM SAMPLE DILU    |
| 51 | IML. CALCITONIN SPLE DILUENT     |
| 52 | CORTISOL SAMPLE DILUE            |
| 53 | ESTRADIOL SAMPLE DILU            |
| 54 | FOLIC ACID SAMPLE DIL            |
| 55 | IML. GASTRIN SAMPLE DILUENT      |
| 56 | HBSAG SAMPLE DILUENT             |
| 57 | CEA SAMPLE DILUENT               |
| 58 | DHEA-SO4 SAMPLE DILUE            |
| 59 | EPO SAMPLE DILUENT               |
| 60 | FERRITIN SAMPLE DILUE            |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 61 | FSH SAMPLE DILUENT           |
| 62 | HGH SAMPLE DILUENT           |
| 63 | IGFBP-3 SAMPLE DILUEN        |
| 64 | INSULIN SAMPLE DILUEN        |
| 65 | T3 SAMPLE DILUENT            |
| 66 | TOTAL T4 SAMPLE DILUE        |
| 67 | THEOPHYLLINE SAMPLE D        |
| 68 | THYROGLOBULIN SAMPLE DILUENT |
| 69 | IMM.ANTI-TG SAMPLE DILUENT   |
|    | <b>Accessories</b>           |
| 70 | PROBE CLEANING               |
| 71 | SAMPLE CUPS (1000)           |
| 72 | SAMPLE CUP CAPS (1000)       |
| 73 | WATER TEST KIT               |
| 74 | SUBSTRATE MODULE (1000 t)    |
| 75 | PROBEWASH                    |

#### 6. REAGENT FOR CELL COUNTER 5 PART (Drew Scientific ,USA)

| Sl. No. | Cat          | EXCELL-2280 Reagents  |
|---------|--------------|-----------------------|
| 1       | 125000000004 | EX EZ Clean           |
| 2       | 125000001720 | EX ISO Diluent        |
| 3       | 125000009500 | EX Lyse 0.5L          |
| 4       | 125000006010 | EX Flo Sheath Reagent |
| 5       | 125000000399 | Ex Trol ( Control)    |
| 6       |              | PM kit                |

#### 7. REAGENT FOR ABG Machine ( I STAT)

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | ABG Cartridge for I Stat |
| 2 | Lithium Battery          |
| 3 | Printer Paper Roll       |

#### 8. Memography Film

| Sl. No. | Description                  |
|---------|------------------------------|
| 1.      | Mamography Film Size:- 18x24 |

#### 9. MISCELLANIOUS

| Sl. No. | Description                   |
|---------|-------------------------------|
| 1       | Cleaner solution              |
| 2       | Formaline liquid              |
| 3       | De-ionisel water              |
| 4       | Glass Cover Slip              |
| 5       | Glass Marking Pencil ( White) |
| 6       | Tissue Paper                  |
| 7       | Dot Matrix Printer paper      |
| 8       | EDTA Powder                   |
| 9       | Leishman Stain (Powder)       |
| 10      | Leishman Stain (Ready to Use) |

|    |  |
|----|--|
| 11 | Sodium Hypochloride                    |
| 12 | Glycerin Pure                          |
| 13 | Xylene                                 |
| 14 | Test Tube Glass                        |
| 15 | Sample Rack                            |
| 16 | Cidex Solution                         |
| 17 | Formaline Tablet                       |
| 18 | Sodalime                               |
| 19 | Filetr Paper No.- 1                    |
| 20 | Methanol                               |
| 21 | Capillary Tube                         |
| 22 | EEG Paper                              |
| 23 | ECG Paper (Machine for BPL Model 9108) |
| 24 | EEG Paste                              |
|    | <b>Pediatrics vaccutainer tube</b>     |
| 25 | Glucose tube – 0.2ml/0.5ml/1ml         |
| 26 | EDTA K2- – 0.2ml/0.5ml/1ml             |
| 27 | EDTA K3- – 0.2ml/0.5ml/1ml             |
| 28 | Heparin sodium – 0.2ml/0.5ml/1ml       |
| 29 | Heparin lithium– 0.2ml/0.5ml/1ml       |
| 30 | No additive – 0.2ml/0.5ml/1ml          |
| 31 | Pro-coagulation – 0.2ml/0.5ml/1ml      |
| 32 | ESR – 0.2ml/0.5ml/1ml                  |
| 33 | PT citrate – 0.2ml/0.5ml/1ml           |
| 34 | Gel & clot activator – 0.2ml/0.5ml/1ml |

#### 10. Other kits required

| Sl. No. | Description                    |
|---------|--------------------------------|
| 1       | PM Kit for Dialysis machine    |
| 2       | Cartridge for RO plant         |
| 3       | PM kit for R.O plant           |
| 4       | P.D cycler Fluid               |
| 5       | P.M Kit for P.D Cycler machine |
| 6       | Triple card marker             |
| 7       | Disposable blood purifier      |

Sd/-Illegible,  
Superintendent.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 35—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

29 जून 2012

सं० 8/नि.को.(रा.) लो० सू०-309/12-2809—राज्य सूचना आयोग के वाद संख्या 30659/09-10 श्री राम चौधरी बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय में माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 16.01.12 को पारित आदेश में कहा है कि “ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग अपने पत्र में अपशब्द का प्रयोग करने के लिए लोक सूचना पदाधिकारी पर आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई नियमानुसार करें ।” इस संदर्भ में लोक सूचना पदाधिकारी, श्री दिनेश कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई एवं शेखपुरा के पत्रांक 114 दिनांक 27.01.12 से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के आलोक में राज्य सरकार के स्तर पर समीक्षोपरान्त श्री दिनेश कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी सम्प्रति सहायक निबंधक, (अ.र.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है । इसकी प्रविष्टि इनके चरित्र पुस्तिका में की जाएगी ।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सतीश प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी)।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचनाएं

21 सितम्बर 2012

सं० 9/आरोप (राज०) (उ०)-02-28/2012-4574—श्री अजय कुमार राय, निरीक्षक उत्पाद, गया द्वारा दिनांक 13.09.12 को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद) से संबंधित राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भोजन अवकाश के दौरान बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने हेतु विभागीय पत्रांक 4450 दिनांक 14.09.12 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक्विचारोपरांत श्री राय के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनकी दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

02. इस क्रम में यह भी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इनके द्वारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विजय रंजन, उप-सचिव।

**21 सितम्बर 2012**

सं० 9/आरोप (राज०) (नि०)—01-20/2012-4573—श्री कान्तधारी सिंह, जिला अवर निबंधक, प० चम्पारण (बेतिया) द्वारा दिनांक 12.09.12 को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) से संबंधित राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में जानबूझ कर भाग नहीं लेने एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए विभागीय पत्रांक 4384 दिनांक 12.09.12 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक्विचारोपरांत श्री सिंह के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनको दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
विजय रंजन, उप—सचिव।

**21 सितम्बर 2012**

सं० 9/आरोप (राज०) (उ०)—02-28/2012-4576—श्री आनन्द कुमार, अधीक्षक उत्पाद, अररिया द्वारा दिनांक 13.09.12 को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद) से संबंधित राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भोजन अवकाश के दौरान बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने हेतु विभागीय पत्रांक 4450 दिनांक 14.09.12 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक्विचारोपरांत श्री कुमार के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनकी दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

02. इस क्रम में यह भी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इनके द्वारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
विजय रंजन, उप—सचिव।

**21 सितम्बर 2012**

सं० 9/आरोप (राज०) (उ०)—02-28/2012-4577—श्री अनिल कुमार आजाद, निरीक्षक उत्पाद, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 13.09.12 को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद) से संबंधित राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भोजन अवकाश के दौरान बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने हेतु विभागीय पत्रांक 4450 दिनांक 14.09.12 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक्विचारोपरांत श्री आजाद के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनकी दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

02. इस क्रम में यह भी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इनके द्वारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
विजय रंजन, उप—सचिव।

सं० कारा/नि० को० (क) 41/12-4692

**कारा निरीक्षणालय  
गृह (कारा) विभाग**

**संकल्प**

**16 अक्टूबर 2012**

**विषय :— श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन की स्वीकृति।**

श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध बंदी प्रताड़ना, सेवानिवृत्त कक्षपाल के सामान्य भविष्य निधि की राशि के भुगतान में विलंब, ए०सी० विपत्र से राशि की निकासी में अनियमितता एवं एक बर्खास्त कक्षपाल के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर कारा महानिरीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना सेवा में पुनः योगदान लेने संबंधी आरोप प्रतिवेदित हुए तथा ये आरोप प्रारंभिक जाँच में प्रथम दृष्टया सही पाये गए।

2. अतए० श्री प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय—केन्द्रीय कारा, बक्सर के विरुद्ध कर्तव्यहीनता, लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, बंदी प्रताड़ना इत्यादि से संबंधित उक्त आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त जाँच आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल को संचालन पदाधिकारी एवं निदेशक, प्रोवेशनचर्या कारा निरीक्षणालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. संचालन पदाधिकारी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में विहित प्रक्रियानुसार जाँच कर जाँच प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करेंगे।



आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त कराया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
लक्ष्मी प्रसाद चौहान,  
संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

## वाणिज्य—कर विभाग

### अधिसूचना

2 नवम्बर 2012

सं० कौन/भी-142/2008 (अंश)-106—विभागीय अधिसूचना संख्या 278 दिनांक 11.09.09 द्वारा श्री शरत् चन्द्र, बिहार वित्त सेवा सम्प्रति वाणिज्य—कर पदाधिकारी, बिहार शरीफ अंचल, बिहार शरीफ को नवादा अंचल के पदस्थापनकाल में निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए “निन्दन” की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007—08 में की गई थी। तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या—16304/2010 में दिनांक 20.03.12 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा “निन्दन” की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

सं० कौन/भी-142/2008 (अंश)-107—विभागीय अधिसूचना संख्या 276 दिनांक 11.09.09 द्वारा श्री राम किशोर प्रसाद, बिहार वित्त सेवा सम्प्रति वाणिज्य—कर पदाधिकारी, लखीसराय अंचल, लखीसराय को भभुआ अंचल के पदस्थापनकाल में निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए “निन्दन” की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007—08 में की गई थी। तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या—356/2012 में दिनांक 03.02.12 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा “निन्दन” की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

सं० कौन/भी-142/2008 (अंश)-108—विभागीय अधिसूचना संख्या 268 दिनांक 11.09.09 द्वारा श्री सुनील कुमार, बिहार वित्त सेवा सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, सासाराम को भभुआ अंचल के पदस्थापनकाल में निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए “निन्दन” की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007—08 में की गई थी। तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या—13442/2010 में दिनांक 05.12.11 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा “निन्दन” की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

सं० कौन/भी-142/2008 (अंश)-109—विभागीय अधिसूचना संख्या 269 दिनांक 11.09.09 द्वारा श्री अनिल कुमार, बिहार वित्त सेवा सम्प्रति वाणिज्य—कर पदाधिकारी, अंकेक्षण भागलपुर को भभुआ अंचल के पदस्थापनकाल में निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए “निन्दन” की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007—08 में की गई थी। तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या—13442/2010 में दिनांक 05.12.11 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा “निन्दन” की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 35—571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>